
CBSE Class 12 समष्टि अर्थशास्त्र

NCERT Solutions

पाठ - 6 खुली अर्थव्यवस्था - भुगतान संतुलन

1. संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- संतुलित व्यापार शेष का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात बराबर है। सूत्र के रूप में, संतुलित व्यापार शेष वस्तुओं का निर्यात - वस्तुओं का आयात = 0 |

चालू खाता संतुलन का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात तथा हस्तांतरण प्राप्ति का योग वस्तुओं के आयात, सेवाओं के आयात तथा हस्तांतरण भुगतान के योग के बराबर हो, सूत्र के रूप में

चालू खाता संतुलन = वस्तुओं का निर्यात + सेवाओं का निर्यात + हस्तांतरण प्राप्ति - वस्तुओं का आयात - सेवाओं का आयात - हस्तांतरण भुगतान = 0

2. आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन-देन क्या है? अदायगी संतुलन में इनके महत्त्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर- आधिकारिक आरक्षित लेन-देन से अभिप्राय सरकारी कोषों में उपलब्ध सोने के कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष में कमी और वृद्धि से है। इसका प्रयोग अदायगी संतुलन के आधिक्य और घाटे को ठीक करने के लिए किया जाता है। घाटे की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को बेचकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को कम करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में कमी को कुल अदायगी-घाटा संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत आधिक्य की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को खरीदकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को बढ़ा करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में वृद्धि को कुल अदायगी आधिक्य संतुलन कहते हैं।

3. मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए। यदि आपको घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तुओं के बीच किसी की खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन-सी दर अधिक प्रासंगिक होगी?

उत्तर- मौद्रिक विनिमय दर वह विनिमय दर है, जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य शब्दों में, यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। इसके विपरीत, वास्तविक विनिमय दर वह है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। यह वह विनिमय दर से, जो स्थिर कीमतों पर आधारित होने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। किसी भी एक समय पर, घरेलू वस्तुएँ खरीदने के लिए मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपयुक्त होती है।

4. यदि 1 ₹ की कीमत 1.25 येन है और जापान में कीमत स्तर 3 हो तथा भारत में 1.2 हो तो भारत और जापान के बीच

वास्तविक विनिमय दर की गणना कीजिए (जापानी वस्तु की कीमत भारतीय वस्तु के संदर्भ में)। संकेत : रुपये में येन की कीमत के रूप में मौद्रिक विनिमय दर को पहले ज्ञात कीजिए।

उत्तर- ₹ 1 = 1.25 येन

$$\therefore 1 \text{ येन} = ₹ \frac{1}{1.25} = ₹ 0.80$$

यह मौद्रिक विनिमय दर हैं।

$$\begin{aligned} \text{वास्तविक विनिमय दर} &= 0.80 \times \frac{1.2}{3} \\ &= \frac{0.96}{3} = 0.32 \end{aligned}$$

$$1 \text{ येन} = ₹ 0.32$$

5. स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी-संतुलन प्राप्त किया जाता था।

उत्तर- डेविड ह्यूम (David Hume) नामक एक अर्थशास्त्री ने 1752 में इसकी व्याख्या की कि किस प्रकार स्वर्णमान के अंतर्गत स्वचालित युक्ति से अदायगी-संतुलन प्राप्त किया जाता था। उनके अनुसार यदि सोने के भण्डार में कमी हुई, तो सभी प्रकार की कीमतें और लागत भी अनुपातिक रूप से कम होंगी और इसके फलस्वरूप घरेलू वस्तुएँ विदेशी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जायेंगी। तदनुसार, आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। जिस देश से घरेलू अर्थव्यवस्था आयात कर रही थी और सोने में उसको भुगतान कर रही थी, उसको कीमतों और लागतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अतः उनका महँगा निर्यात घटेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था से आयात बढ़ेगा। इस प्रकार धातुओं के कीमत तंत्र द्वारा सोने की क्षति उठाकर अदायगी संतुलन में सुधार लाना होता है। सापेक्षिक कीमत पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य की पुनर्स्थापना नहीं होती, तब तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को समकक्ष लाता है। इस संतुलन की प्राप्ति के बाद शुद्ध सोने का प्रवाह नहीं होता और आयात-निर्यात संतुलन बना रहता है इस प्रकार स्वचालित साम्यतंत्र के द्वारा स्थिर विनिमय दर को कायम रखा जाता था।

6. नम्य विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है?

उत्तर- नम्य विनिमय दर का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति तथा माँग की शक्तियों द्वारा होता है, जबकि विदेशी विनिमय की माँग इसकी अपनी कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है, विदेशी विनिमय की पूर्ति इसकी अपनी कीमत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है।

7. अवमूल्यन और मूल्यहास में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी है। यह उस स्थिति में होता है जब विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और माँग की शक्तियों द्वारा नहीं होता है परंतु विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है। मूल्यहास विदेशी करेंसी के संबंध में, घरेलू करेंसी के मूल्य में आने वाली कमी है, यह उस स्थिति में होता है, जब

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और माँग की शक्तियों द्वारा होता है।

8. क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तैरती व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा? व्याख्या कीजिए।

उत्तर- हाँ केंद्रीय बैंक प्रबंधित तैरती व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में विदेश करेंसी के विक्रय तथा क्रय के द्वारा होता है। जब केंद्रीय बैंक को लगता है कि घरेलू करेंसी के बाज़ार मूल्य का अत्याधिक मूल्यहास हो रहा है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए तथा घरेलू करेंसी के पूर्व मूल्य को स्थापित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में यूएस डॉलर की बिक्री करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में डॉलर बेचकर केंद्रीय बैंक डॉलर पूर्ति में वृद्धि करता है। अन्य बातें समान रहने पर डॉलर की पूर्ति में वृद्धि होने से घरेलू करेंसी के संबंध में डॉलर की कीमत में कमी की संभावना होती है। ऐसी क्रिया तब अनिवार्य हो जाती है, जब रुपये के मूल्य में कमी के कारण सरकार का आयात बिल बढ़ जाता है। इसी भांति जब केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि घरेलू करेंसी का बाज़ार मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है तो वह विदेशी करेंसी खरीदना आरंभ कर देता है जब विदेशी करेंसी के लिए माँग में वृद्धि होती है, तो घरेलू करेंसी के संबंध में इसकी कीमत बढ़ने लगती है अब विदेशी एक यूएस डॉलर से अधिक घरेलू वस्तुएँ खरीद सकते हैं। तदनुसार, घरेलू वस्तुओं के लिए निर्यात माँग पुनः होने लगती हैं।

9. क्या देशी वस्तुओं की माँग और वस्तुओं की देशीय माँग की संकल्पनाएँ एक समान हैं?

उत्तर- घरेलू वस्तुओं के लिए माँग तथा वस्तुओं के लिए घरेलू माँग दोनों अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। घरेलू वस्तुओं के लिए माँग में घरेलू उपभोक्ताओं तथा विदेशियों द्वारा वस्तुओं के लिए की गई माँग शामिल होती है। वस्तुओं के लिए घरेलू माँग देश तथा विदेश में उत्पादित वस्तुओं के लिए की गई माँग हैं।

घरेलू वस्तुओं के लिए माँग = $C + I + G + X - M$

वस्तुओं के लिए घरेलू माँग = $C + I + G$

अतः घरेलू वस्तुओं के लिए माँग = वस्तुओं के लिए घरेलू माँग + $(X - M)$

10. जब $M = 60 + 0.06Y$ हो, तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त माँग फलन में क्या संबंध है?

उत्तर- आयात की सीमांत प्रवृत्ति = 0.06 होगी | आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त माँग फलन से अप्रत्यक्ष संबंध है अर्थात् आयात की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ने पर समस्त माँग फलन कम हो जाता है और आयात की सीमांत प्रवृत्ति कम होने पर समस्त माँग फलन बढ़ जाता है।

11. खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है?

उत्तर- खुली अर्थव्यवस्था गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से छोटा होता है, क्योंकि घरेलू माँग का एक हिस्सा विदेशी वस्तुओं के लिए होता है। अतः स्वायत्त माँग में वृद्धि से बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्गत में कम वृद्धि होती है। इससे व्यापार शेष में भी गिरावट

होती हैं।

12. पाठ में इकमुश्त कर की कल्पना के स्थान पर अनुपातिक कर $T = tY$ के साथ खुली अर्थव्यवस्था गुणक की गणना कीजिए।

उत्तर- यदि कर = T है तो गुणक की गणना इस प्रकार होगी-

$$AD = a + b(y - T + \overline{TR}) + I + G$$

$$AD_1 = a + b(y - T - \Delta T + \overline{TR}) + I + G$$

आय का संतुलन $y = AD$

$$y_1 = \frac{1}{1-b}(a - bT + \overline{TR} + I + G)y_2$$
$$= \frac{-b \Delta T}{1-b}(a - bT + \overline{TR} + I + G)$$

$$\Delta y = y_2 - y_1 = \frac{-b \Delta T}{1-b}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta T} = \text{कर गुणांक} = \frac{-b}{1-b}$$

यदि कर का फलन T की जगह $+ y$ हो जाए तो

$$C = a + b(y - tY + \overline{TR}) \text{ हो जाएगा}$$
$$= a + b(1 - t)y + \overline{TR}$$

अतः अनुपातिक करों से आय के स्तर पर न केवल उपभोग पहले से कम होगा, बल्कि उपभोग फलन की प्रवणता भी पहले से कम होगी।

अतः ऐसे में $AD = a + b(1 - b)y + \overline{TR} + I + G$ होगा

संतुलन के लिए $AD = AS$

$$y = a + b(1 - t)y + \overline{TR} + I + G$$

$$y_1 = \frac{a + \overline{TR} + I + G}{1 - b(1 - t)}$$

$$+ y \text{ बदलने पर } y_2 = \frac{a + \overline{TR} + I + G + \Delta ty}{1 - b(1 - t)}$$

$$\text{अतः गुणक} = \frac{1}{1 - b(1 - t)}$$

$$\text{अतः इकमुश्त कर की स्थिति में कर गुणक} = \frac{-b}{1 - b}$$

$$\text{और अनुपातिक वार की स्थिति में कर गुणक} = \frac{1}{1 - b(1 - t)}$$

इससे सिद्ध होता है कि एकमुश्त कर की स्थिति में कर गुणक अधिक होता है और अनुपातिक कर की स्थिति में यह कम होता है। इकमुश्त कर की स्थिति में जब सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की वृद्धि की C गुणा वृद्धि होती है। अनुपातिक कर के साथ उपभोग में $C - C^t$ गुणा आय में वृद्धि होती है।

13. मान लीजिए $C = 40 + 0.8 yD$, $T = 50$, $I = 60$, $G = 40$, $X = 90$, $M = 50 + 0.05Y$

- a. संतुलन आय ज्ञात कीजिए,
 b. संतुलन आय पर निवल निर्यात संतुलन ज्ञात कीजिए
 c. संतुलन आय और निवल निर्यात संतुलन क्या होता है जब सरकार के क्रय में 40 से 50 की वृद्धि होती है?

उत्तर-

- a. आय संतुलन में होती है जब

$$AD = AS$$

$$AD = C + I + G(X - M), AS = y$$

$$AD = 40 + 0.8(y - 50) + 60 + 40 + 90 - 50 - 0.5y (y_D = y - T)$$

$$AS = y,$$

$$y = 180 + 0.8y - 40 - 0.5y$$

$$y - 0.3y = 140,$$

$$0.3y = 140$$

$$y = \frac{140}{0.7}$$

$$y = ₹ 200 \text{ करोड़}$$

- b. निवल निर्यात = $X - M = 90 - 50 - 0.5y$

$$y = 200 \text{ डालने पर}$$

$$= 40 - 0.5(200) = ₹ 60 \text{ करोड़}$$

- c. (i) यदि $G = 50$ तो संतुलन आय

$$y = 40 + 0.8(y - 50) + 60 + 50 + 90 - 50 - 0.5y (y_D = y - T)$$

$$y = 190 + 0.8y - 40 - 0.5y$$

$$y = 150 + 0.3y,$$

$$0.7y = 150$$

$$y = \frac{1500}{0.7} = \frac{1500}{7}$$

$$= 214.28 \text{ करोड़}$$

- (ii) यदि ($G = 50$ हो तो निवल निर्यात = $X - M$)

$$90 - 50 - 0.5y$$

$$y = \frac{1500}{7} \text{ डालने पर}$$

$$y = \frac{0.5}{10} \left(\frac{1500}{7} \right)$$

$$40 - 107.14 = 67.14 \text{ करोड़}$$

14. उपर्युक्त उदाहरण में यदि निर्यात में $X = 100$ का परिवर्तन हो तो संतुलन आय और निवल निर्यात संतुलन में परिवर्तन ज्ञात

कोजिए।

उत्तर- माना संतुलन $AD = AS$

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

$$AS = y$$

$$C + I + G + (X - M) = y$$

$$40 + 0.8(y - 50) + 60 + 40 + (100 - 50 - 0.5y) = y$$

$$40 + 0.8y - 40 + 60 + 40 + 50 - 0.5y = y$$

$$0.7y = 150$$

$$y = 214.28 \text{ करोड़}$$

$$\text{निवल निर्यात} = X - M$$

$$100 - 50 - 0.5(214.28)$$

$$= 50 - 107.14$$

$$= -57.14 \text{ करोड़}$$

15. व्याख्या कीजिए कि $G - T = (S^g - I) - (X - M)$

उत्तर- एक अर्थव्यवस्था में आय संतुलन में होता है जब $AD = AS$ हो।

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

$$AS = C + S + T$$

अतः अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है जब

$$C + S + T = C + I + G + (X - M)$$

पुनः प्रतिबंधित करने पर

$$(S - I) - (X - M)$$

अतः सिद्ध हुआ।

यह इसकी बीजगणितीय सिद्धि थी। तार्किक आधार पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, जब क्षरण = भरण हो। S , T और M क्षरण हैं जबकि I , G और X भरण हैं। जब इनका अंतर बराबर होगा तो आय को चक्रीय प्रवाह संतुलन होगा।

16. यदि देश B से देश A में मुद्रास्फीति ऊँची हो और दोनों देशों में विनिमय दर स्थिर हो तो दोनों देशों के व्यापार शेष का क्या होगा?

उत्तर- देश B के लोग घरेलू वस्तुएँ अधिक लेंगे और आयात कम करेंगे विदेशी भी देश की वस्तुएँ अधिक खरीदेंगे। अतः देश B में निर्यात > आयात होगा इसीलिए देश B का व्यापार शेष धनात्मक होगा।

इसके विपरीत देश A के लोग विदेशी वस्तुएँ अधिक लेंगे और आयात अधिक करेंगे। विदेशी भी देश A से वस्तुएँ खरीदना नहीं

चाहेंगे। अतः देश A में आयात > निर्यात होगा इसीलिए देश A का व्यापार शेष ऋणात्मक होगा।

17. क्या चालू पूँजीगत घाटा खतरे का संकेत होगा? व्याख्या कीजिए।

उत्तर- चालू पूँजीगत खाता खतरे का संकेत होगा यदि इसका प्रयोग उपभोग अथवा गैर विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग विकासात्मक योजनाओं के लिए किया जा रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर ऊँचा उठेगा। आय और रोजगार का स्तर ऊँचा उठने का अर्थ है कि भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, विदेशों में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी तथा सरकारी आय (कर तथा अन्य कारकों से) बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था इस घाटे की पूर्ति करने में समर्थ हो जायेगी।

18. मान लीजिए $C = 100 + 0.75YD$, $I = 500$, $G = 750$ कर आय का 20 प्रतिशत है, $X = 150$, $M = 100 + 0.2Y$ है तो संतुलन आय, बजट घाटा अथवा आधिक्य और व्यापार घाटा अथवा अधिक्य की गणना कीजिए।

उत्तर- अर्थव्यवस्था में संतुलन आय स्तर वह होता है जहाँ

$$AD = AS,$$

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

$$AD = 100 + 0.75(y - 0.2y) + 500 + 750 + (150 - 100 - 0.2y)$$

$$(y_d = y - 0.2y \text{ क्योंकि कर आय का 20\% है।})$$

$$\therefore AD = 1350 + 0.75 - 0.15y + 50 - 0.2y$$

$$AD = 1400 + 0.40y,$$

$$AS = y$$

$$\therefore AS = AD,$$

$$y = 1400 + 0.40y,$$

$$y - 0.40y = 1400,$$

$$0.60y = 1400$$

$$y = \frac{1400}{0.6} \quad y = \frac{14000}{6}$$

$$= 2333.33 \text{ करोड़}$$

$$\text{बजट घाटा} = G - T$$

$$750 - 0.2(2333.33) = 750 - 466.66 = 283.34 \text{ करोड़}$$

$$\text{व्यापार घाट} = X - M = 150 - 100 - 0.2y$$

$$50 - 0.2(2333.33) = 50 - 466.66 = 411.66 \text{ करोड़}$$

19. उन विनिमय दर व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए, जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए किया है।

उत्तर- निम्नलिखित विनिमय दर व्यवस्थाओं का कुछ देशों ने अपने बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए प्रयोग किया है:

1. **विस्तृत सीमा पट्टी प्रणाली-** इस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में दी करेंसियों की समता दर के बीच + 10% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। यह ऐसी प्रणाली को कहते हैं, जो स्थिर विनिमय दर में विस्तृत परिवर्तन/समंजन की अनुमति देती है।
2. **चलित सीमाबंध प्रणाली-** यह भी स्थिर और लोचशील विनिमय दर के बीच एक समझौता है, परंतु जैसा कि नाम है चलित यह कम विस्तृत है। इसके केवल समता दर के बीच $\pm 1\%$ तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। यह लघु सामंजस्य है जिसे समय-समय पर दोहराया जा सकता है।
3. **प्रबंधित तरणशीलता प्रणाली-** स्थिर और लोचशील विनिमय दरों की एक अंतिम मिश्रित प्रणाली है। यह स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर का मिश्रण है, जो सरकार द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित होता है। इसमें विनिमय दर को लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और मौद्रिक अधिकारी कभी-कभी हस्तक्षेप करते हैं।

eVidyaVarta